



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 304 राँची, बुधवार 23 वैशाख, 1937 (श०)  
13 मई, 2015 (ई०)

#### कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

11 मई, 2015

संख्या-13/न्या0 विविध-01/2013 का0 4242 -- झारखण्ड न्यायिक सेवा में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर नियुक्ति हेतु झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 04/2013 के क्रम में आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर की गयी अनुशंसा के आलोक में निम्नांकित अभ्यर्थियों को झारखण्ड न्यायिक सेवा (भर्ती) नियमावली 2004 के नियम-20 एवं 21(a) के अन्तर्गत झारखण्ड न्यायिक सेवा में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) प्रशिक्षु के रूप में वेतनमान रु 27700-770-33090-920- 44450-1080-44770/-में उनके पदस्थापन के बाद योगदान की तिथि से अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है:-

क्रम संख्या	रौल नम्बर	अनुशंसित अभ्यर्थियों के नाम	स्थायी एवं पत्राचार पता
01	41320776,	प्रदीप कुमार	पत्राचार पता:- प्रदीप कुमार, हाऊस नम्बर-1310, सेक्टर-16, इंदिरा नगर, पोस्ट-इंदिरा नगर, थाना-गाजीपुर, जिला-लखनऊ, राज्य-उत्तर

			प्रदेश, पिन-226016. स्थायी पता:- प्रदीप कुमार, जानकी नगर, पोस्ट-दौलतपुर, थाना-निघासन, जिला-लखीमपुर खीरी, राज्य-उत्तर प्रदेश, पिन-262903
02	41321585,	एन्जलीना जॉन	पत्राचार पता:- एन्जलीना जॉन, मकान नम्बर 2935, एम0सी0आई0 कटंगा, क्रिश्चियन कॉलोनी, नर्मदा रोड, जबलपुर, पोस्ट-जबलपुर, थाना-गोरखपुर, जिला-जबलपुर, राज्य-मध्यप्रदेश, पिन-482001. स्थायी पता:- Do
03	41321281	कुमार विपुल	पत्राचार पता:- कुमार विपुल, पिता-विजय कुमार सिंह, जेल से पूर्व अलखनाथ रोड, पोस्ट एवं थाना बाढ़, जिला-पटना, राज्य-बिहार, पिन-803213. स्थायी पता:- Do
04	41320441,	रवि प्रकाश तिवारी	पत्राचार पता:- रवि प्रकाश तिवारी, 530/120, छोटा सेखापुर कपुरथला, अलीगंज, पोस्ट एवं थाना-अलीगंज, जिला-लखनऊ, राज्य-उत्तर प्रदेश, पिन-226024. स्थायी पता:- Do
05	41321116,	ताबिन्दा खान	पत्राचार पता:- ताबिन्दा खान, अफ्रीदी विल्ला, ग्राम एवं पोस्ट-सेहाली जागीर, तहसील-हसनपुर, पोस्ट-सेहाली जागीर थाना-हसनपुर, जिला-अमरोहा, राज्य-उत्तर प्रदेश, पिन-244241. स्थायी पता:- Do
06	41321678,	शिवम चैरसिया	पत्राचार पता:- शिवम चैरसिया, 513 मानस इन्क्लेव, (नई पानी टंकी के नजदीक), इंदिरा नगर, पोस्ट-सीमैप, थाना-मानस सिटी, जिला-लखनऊ, राज्य-उत्तर प्रदेश, पिन-226016 स्थायी पता:- Do
07	41321617,	स्वाति विजय उपाध्याय	पत्राचार पता:- स्वाति विजय उपाध्याय, मकान संख्या-2632/4, प्यासी कम्प्लेक्स, गरहा वार्ड पूरवा, पिशनहरी की मढिया, पोस्ट एवं थाना-गरहा, जिला-जबलपुर, राज्य-मध्यप्रदेश, पिन-482003.

			स्थायी पता:- Do
08	41320867,	देव कुमार	पत्राचार पता:- देव कुमार, ए 601 लालबाग आफिसर्स कॉलोनी, पोस्ट-जी0पी0ओ0 लखनऊ, थाना-कैसरबाग, जिला-लखनऊ, राज्य-उत्तर प्रदेश, पिन-226001.  स्थायी पता:- देव कुमार, डिंगुरपुर, पोस्ट-उतरेथु, थाना-इब्राहिमपुर, जिला-अम्बेदकर नगर, राज्य-उत्तर प्रदेश, पिन-224234.
09	41320057,	अक्षत श्रीवास्तव	पत्राचार पता:- अक्षत श्रीवास्तव, पिता-देवी प्रसाद श्रीवास्तव, मीना नीलियम 243 ए, शंकर कॉलोनी, कच्ची सड़क, पोस्ट-दारागंज, थाना-रानागंज, जिला-इलाहाबाद, राज्य-उत्तर प्रदेश, पिन-211006.  स्थायी पता:- अक्षत श्रीवास्तव, पिता-देवी प्रसाद श्रीवास्तव, औरा तहसील मरियाहु, पोस्ट-औरा, थाना-रामपुर, जिला-जौनपुर, राज्य-उत्तर प्रदेश, पिन-222137.
10	41321734,	राकेश रंजन	पत्राचार पता:- राकेश रंजन, फ्लैट नम्बर-6, गंगा महल, नार्थ मंदिरी, पटना, पोस्ट-पटना जी0पी0ओ0, थाना-बुद्धा कॉलोनी, जिला-पटना, राज्य-बिहार, पिन-800001.  स्थायी पता:- Do
11	41321464,	सुनील कुमार सिंह	पत्राचार पता:- सुनील कुमार सिंह, पिता-श्री दयाशंकर सिंह, पूर्वी कनौजिया वार्ड, यू0एन0पी0जी0 कॉलेज के पीछे, पोस्ट एवं थाना-पड़रौना, जिला-कुशीनगर, राज्य-उत्तर प्रदेश, पिन-274304.  स्थायी पता:- Do
12	41321509,	विवेक जैन	पत्राचार पता:- विवेक जैन, नवकार गारमेन्ट्स, रेलवे रोड, गन्नौर मण्डी, पोस्ट एवं थाना-गन्नौर, जिला-सोनीपत, राज्य-हरियाणा, पिन-131101.  स्थायी पता:- Do
13	41321173,	अभिनव	पत्राचार पता:- अभिनव, C/o उपेन्द्र कुमार, (प्रोफेसर अरूण) विद्यापुरी, जोगीपुर, (डा0 शान्तिराय के क्लिनिक के पीछे), पोस्ट-लोहियानगर, थाना-पत्रकारनगर, जिला-पटना, राज्य-बिहार, पिन-800020.

			स्थायी पता:- Do
14	41320309,	पुनीत कुमार तिवारी	पत्राचार पता:- पुनीत कुमार तिवारी, 79, मतियारा रोड, अल्लाहपुर, पोस्ट-दारागंज, थाना-जॉर्ज टाउन, जिला-इलाहाबाद, राज्य-उत्तर प्रदेश, पिन-211006.  स्थायी पता:- पुनीत कुमार तिवारी, अचलगढ, पोस्ट अचलगढ, थाना-रेवती, जिला-बलिया, राज्य-उत्तर प्रदेश, पिन-277209.
15	41321792,	भारती मंगलानी	पत्राचार पता:- भारती मंगलानी, पिता-ज्ञानचंद मंगलानी, कोठी नम्बर-33, सूर्यनगर दीवानी क्रोसिंग के नजदीक, पोस्ट-संजय प्लेस, थाना-न्यू आगरा, जिला-आगरा, राज्य-उत्तर प्रदेश, पिन-282002.  स्थायी पता:- Do
16	41320280,	मनीष कुमार मिश्रा	पत्राचार पता:- मनीष कुमार मिश्रा, C/o नरेन्द्र बंसला, गली नम्बर-12/4, वजीरावाद ग्राम, पोस्ट-बुरारी, थाना-तिमारपुर, जिला-उत्तरी दिल्ली, राज्य-दिल्ली, पिन-110084.  स्थायी पता:- मनीष कुमार मिश्रा, पिता- हर्षवर्द्धन मिश्रा, राजापुर, पोस्ट एवं थाना-इतऊन्जा, जिला-लखनऊ, राज्य-उत्तर प्रदेश, पिन-227205.
17	41320428,	रंजय कुमार	पत्राचार पता:- रंजय कुमार, डी0एस0 कोठारी हॉस्टल, रूम नम्बर-103, दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली, पोस्ट- दिल्ली यूनिर्सिटी, थाना-मुखर्जी नगर, जिला-उत्तरी दिल्ली, राज्य- दिल्ली, पिन-110007.  स्थायी पता:- रंजय कुमार, पिता-स्व0 नवलकिशोर शर्मा, आजाद नगर, रोड नम्बर-1 कंकड़बाग, पटना, पोस्ट एवं थाना-कंकड़बाग, जिला-पटना, राज्य-बिहार, पिन-800020.
18	41320548	मयंक तुषार तोपनो	पत्राचार पता:- मयंक तुषार तोपनो, मरियमपुर, पीस रोड, पोस्ट एवं थाना-लालपुर, जिला-रांची, राज्य-झारखण्ड, पिन-834001.  स्थायी पता:- Do
19	41321271,	रूपा बन्दना किड़ो	पत्राचार पता:- रूपा बन्दना किड़ो, नया टोली, नयाटोली चैक के नजदीक, के0एम0 रोड, पोस्ट-रांची, थाना-लोअर बाजार, जिला-रांची, राज्य-झारखण्ड, पिन-834001.

			स्थायी पता:- Do
20	41321164,	सत्य भामा कुमारी	पत्राचार पता:- सत्य भामा कुमारी, C/o सागर जी एस0 एन0 मार्बल, लिली कॉटेज, राजस्थान होटल के सामने, लालपुर चौक, रांची, पोस्ट एवं थाना-लालपुर, जिला-रांची राज्य-झारखण्ड, पिन-834001  स्थायी पता:- सत्य भामा कुमारी, फ्लैट नम्बर-102, हरिहर इस्टेट, बी ब्लॉक, गली नम्बर-4सी, कुसुमविहार, मोरहाबादी, पोस्ट-मोरहाबादी, थाना-बरियातु, जिला-रांची, राज्य-झारखण्ड, पिन-834008.
21	41320475,	निर्मला बारला	पत्राचार पता:- निर्मला बारला, द्वारा-रवि रोशन बारला, बिरसा नगर, आर0वी0सी0 रोड, अरसण्डे, कांके रांची, पोस्ट एवं थाना-कांके, जिला-रांची, राज्य-झारखण्ड, पिन-834006.  स्थायी पता:- Do

2. यह नियुक्ति परीक्ष्यमान रूप से होगी तथा परीक्ष्यमान अवधि का विस्तार अथवा सम्पुष्टि झारखण्ड न्यायिक सेवा (भर्ती) नियमावली 2004 के नियम-21 एवं 22 के अनुसार यथाविहित झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आधार पर होगी।

3. झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक में निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त अभ्यर्थी अधिसूचना के निर्गत होने से चार माह के अन्दर झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-52 के तहत चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं दहेज नहीं लेने-देने के सम्बन्ध में घोषणा पत्र के साथ अपना योगदान झारखण्ड उच्च न्यायालय में देंगे।

4. इनका पदस्थापन तथा वरीयता का निर्धारण झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,  
सुमन कुमार,  
सरकार के अपर सचिव।

-----

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,

झारखण्ड गजट (असाधारण) 304—50।